



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 263] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 1, 1980/भाद्र 10, 1902

No. 263] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 1, 1980/BHADRA 10, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वित्त मन्त्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 1980

विशेष यात्रा कर

सा. का. नि. 508(अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1979 (1979 का 21) की धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है, 4 सितम्बर, 1980 से 8 सितम्बर, 1980 तक नई दिल्ली में हो रहे राष्ट्रमण्डलीय शासनाध्यक्ष क्षेत्रीय सम्मेलन (रा शा क्षेत्र 2) में उपस्थित होने के लिए आस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, फिजी, किरिबाती, मलेशिया, नौरु, न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनी, सिंगापुर, श्रीलंका, टोंगा, वेस्टर्न सामोआ, सालोमन द्वीपसमूह, तूवालू और न्यू हेब्रिड्स

(वानूरा) से आने वाले शासनाध्यक्षों, उनके पति या पत्नियों और प्रतिनिधियों को, उक्त सम्मेलन की समाप्ति पर भारत से बाहर किसी स्थान को उनकी अन्तर्राष्ट्रीय यात्रा की बाबत, उक्त अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (1) के अधीन उद्-ग्रहणीय विदेश यात्रा-कर के संदाय से छूट देती है।

2. यह अधिसूचना 10 सितम्बर, 1980 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, प्रवृत्त रहेगी।

[सं. 2/एफ टी टी/80-फा. सं. 306/1/80-एफ टी टी]

के. कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st September, 1980

FOREIGN TRAVEL TAX

G.S.R. 508(E).—In exercise of the powers conferred by section 36 of the Finance Act, 1979 (21 of 1979) the Central Government, being satisfied that it is necessary and expedient so to do, hereby exempts the Heads of Governments and their spouses, and the delegates, of Australia, Bangladesh, Fiji, Kiribati, Malaysia, Nauru, New Zealand, Papua New Guinea, Singapore, Sri Lanka, Tonga, Western Samoa, Solomon Islands, Tuvalu and New Hebrides (Vanutu) coming to attend the Commonwealth Heads of Governments Regional Meeting (CHOGRM II) to be held in New Delhi from the 4th September 1980 to the 8th September, 1980, from payment of foreign travel tax leviable under sub-section (1) of section 35 of the said Act in respect of their international journey to any place outside India at the close of the said Meeting.

2. This notification shall remain in force upto and inclusive of the 10th September, 1980.

[No. 2/FTT/80-F. No. 306/1/80-FTT.]

K. KUMAR, Under Secy.